



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

15 वैशाख 1938 (श0)  
(सं0 पटना 373) पटना, वृहस्पतिवार, 5 मई 2016

---

सं0 3ए-3-वे0पु0-(भत्ता)-08 / 2013-3575 / वि0

वित्त विभाग

संकल्प

3 मई 2016

विषय:-राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को दिनांक 01/01/2016 के प्रभाव से 119 प्रतिशत के स्थान पर 125 प्रतिशत महंगाई भत्ता की स्वीकृति के संबंध में ।

वित्त विभाग के संकल्प सं0 7922/वि0 दिनांक 09/09/2015 के द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 01/07/2015 के प्रभाव से 119 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं0- 1/1/2016-E-II (B) दिनांक 07/04/2016 द्वारा केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक-01/01/2016 के प्रभाव से 6 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए महंगाई भत्ता की दर को 119 प्रतिशत से बढ़ाकर 125 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3. उक्त के आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि—

- (i) राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01/01/2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान में 119 प्रतिशत के स्थान पर 125 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता का भुगतान किया जायेगा ।
- (ii) पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे के योग पर महंगाई भत्ता आकलित किया जाएगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जायेगा ।
- (iii) महंगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।

(iv) उपर्युक्त महंगाई भत्ते की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा ।

(v) कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबन्धिक रूप से कर दिया जायेगा ।

4. इस बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता दिनांक 01/01/2016 से भुगतेय है और इसका भुगतान मई, 2016 के वेतन में जोड़कर होगा, परंतु उसके पूर्व के महीनों के लिए आकलित बकाये राशि का भुगतान माह जून, 2016 में किया जायेगा ।

5. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान में उक्त महंगाई भत्ता का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगी ।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राहुल सिंह,

सचिव (व्यय) ।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 373-571+500-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>